

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग -- खण्ड 3 -- उपखण्ड

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 387] नई दिल्ली, मंगलवार, अश्विन 23, 1890

No. 387] NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 15, 1968/ASVINA 23, 1890

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF FOOD, AGRICULTURE, COMMUNITY DEVELOPMENT AND COOPERATION

(Department of Agriculture)

NOTIFICATION

New Dehli, the 14th October 1968

S.O. 3622.—In exercise of the powers conferred by Section 5 of the Essential Commodities Act 1955 (10 of 1955) the Central Government hereby direct that the powers conferred on it to make orders under clauses (c), (d) and (f) of sub-Section (2) of section 3 of the said Act shall, in relation to prices, stocks and movements of cattle fodder of any of the varieties specified in the schedule hereto annexed, be exercisable by the State Government in the whole State of Rajasthan.

This Order shall remain in force upto the 31st March, 1969.

THE SCHEDULE

Varieties of Cattle Fodder

Hay.

Bhusa.

Karab or Karabi or Kadbi.

Moth Chara.

Moth, Chura.

Gram Chhilka,
Gram Churi.
Wheat Chapet.
Barley husk.
Rice husk.
Gowar and its products.

This issues in supersession of the Government of India Notification S.O. 3290
dated 12th September, 1968.

[No. 24-7/67-L.D.III.]

A. PRAKASH, Jt. Secy.